

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 1979/माघ 13, 1900
No. 38] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 1979/MAGHA 13, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 16-ईटीसी/(पीएन)/79

विषय : बेराइट्स का निर्यात.

मिसिल सं० 8(4)/78-ई 2—निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 सं० ई(सी) 39, 1977/
एएम(95), दिनांक 2 फरवरी, 1979 और अप्रैल 1978—मार्च 1979 की निर्यात-नीति के
पृष्ठ 20 पर क्रम सं० 45 (7) के सामने दर्शाई गई बेराइट्स के निर्यात के लिये नीति की
कॉपी ध्यान दिलाया जाता है ;

2. अप्रैल 1978—मार्च 1979 निर्यात नीति के पृष्ठ 20 पर क्रम सं० 45(7) के
सामने कालम 2 और 3 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि का संशोधन करके इस प्रकार पढ़ने
का निर्णय किया गया है :—

क्रम सं०	सद का विवरण	माहसिल नीति
1	2	3
45(7)(क)	"मकेद/हिस मकेद बेराइट्स से मिश्र बेराइट्स (पिंड एवं पाउडर)"	निर्यात की अनुमति (i) खनिज तथा धातु व्यापार निगम और (ii) उन खात मालिकों को जिनके पास 31-3-1978 को ऐसे पट्टे हों जो उनके उत्पादन से अधिक न हों और जो न्यूनतम मँकेनिजम कौमत् के अधीन होंगे, को ही दी जायेगी।"
47(7)(ख)	"मकेद/हिस मकेद बेराइट्स"	"प्रत्येक पोतलदान के लिये बाणिज्य विभाग से निकाली के आधार पर निर्यात अनुमति होगी।"

का०बै० शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

((Department of Commerce))

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 16-ETC (PN)/79

New Delhi, the 2nd February, 1979

Subject : Export of Barytes

F. No. 6(4)/788-EIL.—Attention is invited to Exports (Control) Order, 1977, No. E (C)O, 1977/AM (95) dated the 2nd February, 1979, and the policy for export of Barytes appearing against S. No. 45(vii) at page 20 of Export Policy April, 1978–March, 1979.

2. It has been decided to amend the existing entry under columns 2 and 3 against S. No. 45(vii) at page 20 of Export Policy April, 1978–March, 1979, to read as under :

S. No.	Description of the item	Licensing Policy
1	2	3
45(vii)(a)	"Barytes (lumps and powder) other than white/snow-white barytes".	"Export will be allowed to (i) MMTC and (ii) Mine owners holding leases as on 31-3-1978 to an extent not exceeding their own production and subject to a floor price mechanism."
45(vii)(b)	"White/snow-white barytes."	"Export shall be allowed on the basis of clearance from the Department of Commerce for each shipment."

K. V. SESHADRI,

Chief Controller of Imports & Exports